



August 14, 2022

To,

The Secretary
BSE Limited
The Stock Exchange, Mumbai
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai- 400001

ISIN: INE417D01012 - IM+ CAPITALS LIMITED

Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

In pursuant to Regulation 47 (1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed copies of unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the Quarter ended on June 30, 2022 published in newspaper viz. Financial Express (English Newspaper) & Jansatta (Hindi Newspaper) on August 14, 2022.

This is for your information and records.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For IM+ Capitals Limited


SAKSHI GOEL

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER



PROZONE INTU PROPERTIES LIMITED

CIN : L45200MH2007PLC174147
 Regd. Off: 105/106, Ground Floor, Dream Square, Dalia Industrial Estate, Off New Link Road, Andheri West, Mumbai- 400 053
 Website: www.prozoneintu.com Ph: +91-22-68239000

Extract of Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June 2022 (Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)		31.03.2022 (Unaudited)
1	Total Income from Operations (net)	2,863.78	2,948.93	710.57	9,337.69
2	Profit / (Loss) from ordinary activities before tax before share of profit / (loss) of joint venture	411.90	375.63	(1,017.74)	(593.87)
3	Net Profit / (Loss) for the period / year	323.50	502.18	(934.07)	(149.38)
4	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period / year	323.79	407.38	(933.44)	597.16
5	Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- per share)	3,052.06	3,052.06	3,052.06	3,052.06
6	Other Equity	-	-	-	45,168.40
7	Earnings Per Share				
a. Basic	0.01 *	0.11 *	(0.33) *	(0.23)	
b. Diluted	0.01 *	0.11 *	(0.33) *	(0.23)	

Notes :
 1. Standalone information:
 Sr. No. Particulars
 1. Income from Operations 238.74 283.38 245.09 986.53
 2. Profit from ordinary activities before tax 174.75 230.36 115.45 702.58
 3. Net Profit/(Loss) for the period / year end 131.58 178.41 90.88 529.56
 4. Total comprehensive income / (loss) for the period / year end 133.11 3,767.30 91.43 5,946.07
 5. Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs.) 0.09* 0.12* 0.06* 0.35

2. The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results is available on the Company's website at www.prozoneintu.com and the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

3. The figures for last quarter are balancing figures between audited figures in respect of full financial year and published year to date figures upto 3rd quarter of respective financial year.

4. Previous period figures have been re-grouped / re-classified wherever necessary, to conform to current period's classification in order to comply with the requirements of the amended Schedule III to the Companies Act, 2013.

For and on Behalf of the Board
 Sd/-
 Nikhil Chaturvedi
 Managing Director
 DIN : 0004983
 Date : 13 August 2022
 Place : Mumbai

HARDWYN INDIA LIMITED

Registered Office: B-101, PHASE-1, MAYAPURI, NEW DELHI-110064
 Tel.011-28115352,28114972,28114643
 CIN: L74990DL2017PLC324826
 Email:info@hardwyn.com, Web:www.hardwyn.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022 (Rs. in Thousands)

Sl. No.	Particulars	June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1.	Total Income from Operations	256012.17	333668.65	
2.	"Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)"	12242.57	23969.08	
3.	"Net Profit / (Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)"	12242.57	23969.08	
4.	"Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)"	8708.07	16624.36	
5.	"Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)"	8708.07	16624.36	
6.	Equity Share Capital	10200.00	10200.00	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	51468.00		
8.	"Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -1. Basic(in Rs) 2. Diluted(in Rs)"	0.85	1.63	

Notes:
 a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
 b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
 c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

For and on behalf of Board Directors of
 Interworld Digital Limited
 Sd/-
 Peeyush Kumar Aggarwal
 Chairman
 DIN: 0099423
 Date: 13.08.2022

SOUTH EAST AGRO INDUSTRIES LIMITED

(CIN : L74990DL1993PLC055818)
 Regd : C-2 Malviya Nagar, 11th Floor, New Delhi- 110017
 E-Mail : southeastagro@gmail.com
 Tel : +91-821-242010

NOTICE OF 29th AGM AND REMOTE-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the Members of M/s South East Agro Industries Limited shall be held on Thursday the 8th day of September 2022 at 02:30 PM at its registered office of the Company at C-2, Malviya Nagar, New Delhi-110017 to transact the businesses as detailed in the Notice sent to the members at their registered addresses/email ID's together with Annual Report of the Company containing Audited Financial Statements, Board's Report for the financial year ended on March 31, 2022.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Regulations, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide its shareholders with facility of 'remote-e-voting' (e-voting from a place other than venue of AGM), through e-voting services provided by Link Intime India Private Ltd (LIPL), to enable its members to cast their votes in respect of businesses to be transacted at 29th AGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of 2nd September, 2022, may cast their vote electronically on the resolutions set out in the Notice of AGM through electronic voting system of LIPL. The Notice of AGM has been sent electronically and through courier on August 13, 2022. The remote e-voting shall commence on Monday September 5, 2022 from 9:00 A.M. and shall end on Wednesday September 7, 2022 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 PM on September 7, 2022, and once the vote is cast by the member, the member shall not be entitled to change it subsequently. Persons who have acquired shares and have become member after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 2, 2022 may write to Link Intime India Private Ltd. At: notices@linkintime.co.in or may be addressed to Dr. Amit Mehta at email: amit_mehta@scg@yahoo.com, to obtain user id and password. Any member who has exercised his right of vote through remote e-voting will be entitled to attend the 29th AGM but will not be entitled to vote again in the meeting. The Notice of the 29th AGM will be available at the website of the LIPL at https://investor.linkintime.co.in Any query or grievance in relation to voting by electronic means may be addressed to Dr. Amit Mehta and can be sent at email: amit_mehta@scg@yahoo.com and/or helpdesk@investor.linkintime.co.in For South East Agro Industries Limited (Amit Mehta) Sd/- Director Date : 13.08.2022

UFM INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : Meherpur, Silchar, Assam - 788015, Phone: 03842 224822/996, Fax: 03842 241539
 Email: ufm.investorgroups@gmail.com; Website: ufmindl.weebly.com
 CIN : L15311AS1986PLC002539 (Rs. In Lakhs)

Extract of the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020

Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
	30.06.2022 Unaudited	30.06.2021 Unaudited	31.03.2022 Audited
Total Income from Operations	2,708.44	1,822.44	8,808.40
Net Profit/(Loss) before tax and exceptional items	26.65	19.66	140.78
Net Profit/(Loss) before tax after exceptional items	26.65	19.66	140.78
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	20.08	14.91	111.41
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	20.08	14.91	111.41
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	593.26	593.26	593.26
Reserves (Excluding Revaluation Reserve)	-	-	1,361.36
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) - Basic and Diluted (₹)	0.34	0.25	1.88

NOTES TO FINANCIAL RESULTS:
 1. The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 13th August, 2022. The Statutory Auditors have carried out Limited Review of the above results.
 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial results are available on the Stock Exchange website and also on the Company's website www.ufmindl.weebly.com

By order of the Board For UFM Industries Limited
 Sd/-
 Mahabir Prasad Jain
 Managing Director
 DIN : 00498001
 Date : 13.08.2022

Indian Bank

BRANCH: Khanna, Shukla Building, Near Malerkotla Chowk, G.T Road Khanna, Dist.- Ludhiana, Punjab-141401

Rule-8 (1) POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized officer of the INDIAN BANK, Khanna Branch under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under 13 (2) read with rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices dated mentioned as below calling upon the borrower(s)/Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the Notice(s) being within 60 days from the date of receipt of the said Notices.

Since the concerned Parties have failed to repay the amount, notice is hereby given to the owner of the property, under parties concerned, and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sec. 13(4) of the said Act read with rule 8 and 9 of the said rules, on these dates mentioned against below accounts.

The parties concerned in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property (ies) will be subject to the charge of the INDIAN BANK, Khanna Branch for an aggregate amount of as mentioned below + future interest thereon and costs, etc.

The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Name of the Borrower/Guarantor/ Owner of Property	Description of the Immovable Property	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Outstanding
1. (Borrower):- Mr Rohit Sharma S/o Sh Pawan Kumar Sharma, Street no 1 Mandir Wali Street Uttam Nagar Khalsa School Road Khanna Distt Ludhiana	Residential Property Measuring 0K- 15 Marla comprised as 15/973 share out of total Land Measuring 48 Kanal- 13 Marla, comprised in Khewat No. 299, Khatuani No. 558, Rect No. 80, Killa No. 4(6-18), 7/1(3-7) Rect No 81 Killa No 2/2(6-13), 3/1(5-3), 8/2(6-0), 9/8(0-0), 12/1(1-0), 13/1(5-16), 18/2(5-16) as per copy of Jamabandi for the year 2012-13 situated at Rahoun, Tehsil Khanna, Ludhiana. bounded as under East: Plot of Bhatti, West: Bhootan Wala Gurudwara Road, North: Shushma Rani, South: Darshan Singh As per Sale Deed Bearing Wasika No. 266 dated 24.04.2017	28.04.2022	08.08.2022	Rs. 15,90,313.00 (Rupees Fifteen Thousand Three Hundred Thirteen Hundred Thirteen only) and interest thereon.
2. (Guarantor) M/s Priyanka Sharma W/o Rohit Sharma, Street no 1 Mandir Wali Street Uttam Nagar Khalsa School Road Khanna Distt Ludhiana				
3. (Guarantor):- Mrs Parveen Sharma W/o Sh Pawan Kumar Sharma, Street no 1 Mandir Wali Street Uttam Nagar Khalsa School Road Khanna Distt Ludhiana				

DATE: 13.08.2022 PLACE: Khanna AUTHORISED OFFICER

Indian Bank

BRANCH: Malerkotla, District Sangur

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS & ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI ACT)

A Notice is hereby given that the following borrowers have defaulted in the repayment of principal and payment of interest of credit facilities obtained by them from the bank and said facilities have turned Non Performing Assets. The Notice under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002 have been issued by Authorised Officer of Bank to Borrowers and Guarantors on their last known addresses. However, in some of the cases the notices have been returned un-served and in other cases acknowledgement has not been received. As such Borrowers/Guarantors are hereby informed by way of public notice about the same.

Name of the Branch, Borrowers/Guarantors/ Partners/Mortgagor	Description of Mortgaged Assets	Date of Demand Notice	Date of NPA	Amount Outstanding
Malerkotla, Sangur	1. EM of residential House measuring 83.33 Sq Yards situated at B-17/619, Mohalla Ilyas Khan Wala, Inside Delhi Gate Tehsil Malerkotla & Distt Sangur in the name of Mr. Mohd Arshad registered in the office of Sub-registrar vide Transfer Deed bearing wasika no 274 dated 12.05.2014 and bounded as under: East Street Way, West: House of Abdul Gaffar, North: House of Mohd Anwar and Passage, South: Street Way.	03-08-2022	28.09.2020	Rs 5,53,253.00/- (Rupees Five lakhs fifty three thousand two hundred fifty three only) as on 02.08.2022 and the said amount carries further interest at the agreed rate from 03.08.2022 till date of repayment.

Hypothecated assets Detailed description:- All moveable fixed assets, Book Debts and stock of the Borrower present and future whatsoever.

It may be noted that under the provisions of the section 13(8) of the Act, right of redemption is available to you, by paying the dues of the Bank together with all costs, charges and expenses incurred by the Bank, at any time, before the date of publication of notice, for public auction or inviting quotations or tender from public or private treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of the secured assets. The above Borrowers/ Guarantors/ Mortgagors are advised to pay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken as per provisions of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 after the expiry of 60 days from the date of publication of this notice.

As per Sec. 13 (13) of the Act, on receipt of this notice you are restrained from disposing of or dealing with the above securities except in the usual course of business without the consent of the bank. Please note any violation of this section entails serious consequences. Borrowers/ Guarantors/ Mortgagors are all also advised to collect the copy of notice from the concerned branch.

Date: 13.08.2022 PLACE:- Malerkotla AUTHORISED OFFICER

VAKSONS AUTOMOBILES LIMITED

Corporate Identity Number: L51502DL2003PLC119052
 Regd. Office: Regd Office: 105, 1st Floor, Barodia Tower, Plot No.12, D Block Central Market Prashant Vihar, New Delhi-110085.
 Corporate Office: A-Block, Shubham Garden Complex Murthal Road Sonapat, Haryana-131001
 Tel.: 022-2218572 | Fax: 2218572 | Website: www.vaksonsautomobiles.com | Email: info@vaksonsautomobiles.com

Extract of the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended 30th June 2022 (Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Consolidated	
		30.06.2022 Unaudited	30.06.2021 Unaudited	30.06.2022 Unaudited	30.06.2021 Unaudited
1	Total income from operations	4.78	18.07	4.78	18.07
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.14	9.69	0.34	3.84
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.14	9.69	0.34	3.84
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.84	8.64	0.04	3.84
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	0.84	8.64	0.04	3.84
6	Equity Share Capital	1052.05	1052.05	1052.05	1052.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Financial Result of 31.03.2022)	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic Diluted	0.01	0.08	0.00	0.03

NOTE:
 a) These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") 34 interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.
 b) The company has been migrated from the SME platform of BSE to main board on 13th October 2021 and hence these results have been prepared by adopting the Indian Accounting Standard.
 c) The company has adopted Indian Accounting Standards (IND-AS) notified under section 133 of Companies Act, 2013 ("the Act") read with Companies (Indian Accounting Standard) Rules 2015, from April 01, 2022 and the effective date of such transition is April 01, 2022, such transition has been carried out from the erstwhile Accounting Standard notified under the Act, (collectively referred to as previous GAAP)
 d) The Audit Committee has reviewed the above results and the Board of Directors has approved the above results and its release at their respective meetings held on August 13, 2022.
 e) The IND-AS Compliant financial results pertaining to the quarter ended on June 30, 2022 have not been subject to Limited Review by the Statutory Auditors. However, the Management has exercised necessary due diligence to ensure that financial results provide a true and fair view of its affairs.
 f) As required by para 32 of IND AS 101, there is no change in the figures reported under the previous GAAP and IND-AS is as under.
 g) The Company has single reportable business segment. Hence, no separate information for segment wise disclosure is given in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 108 - "Operating Segments".
 h) The figures for the corresponding previous period have been regrouped/ reclassified wherever necessary, to make them comparable.
 i) The outbreak of Coronavirus (COVID-19) pandemic globally and in India is causing significant slow disturbance and slowdown of economic activity. The company has evaluated impact of this pandemic on its business operations and based on its review and current indicators for future economic conditions, there is no significant impact on its quarterly results.
 j) The aforesaid Quarterly Results are also being disseminated on the website of the Company i.e.(https://vaksonsautomobiles.com/investor-relations.php).

For Vaksons Automobiles Limited
 Sd/-
 Atul Kumar Jain
 Director
 Date : August 13, 2022
 Place : New Delhi

STANDARD SURFACTANTS LIMITED

Registered Office: 8/15, Arya Nagar, Kanpur-208002 (India) Tel: 0512-2531762
 E-mail: headoffice@standardsurfactants.com, Website: www.standardsurfactants.com
 Corporate Identity Number: L24243UP1989PLC010950

STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE 2022 (Rs. In Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
		30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1.	Total income from operations (net)	4,319.71	3,008.16	3,324.34	12,514.49
2.	Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	92.87	21.77	154.40	320.33
3.	Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	92.87	21.77	154.40	320.33
4.	Net profit / (loss) for the period after tax	66.26	20.33	114.03	245.45
5.	Total comprehensive income for the period	66.26	18.23	114.03	243.35
6.	Paid-up equity share capital	711.26	711.26	711.26	711.26
7.	Reserves I.e Other Equity	-	-	-	1,407.80
8.	Earnings per equity share (EPS) (Face value per share Rs.10/-each)				
a) Basic (Rs. per share)	0.93	0.26	1.60	3.42	
b) Diluted (Rs. per share)	0.93	0.26	1.60	3.42	

Notes:
 1. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 13, 2022. The statutory auditors have carried out and reviewed these financial results. 2. The figures for the quarter ended March 31, 2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures upto the third quarter of the respective financial year, which were only reviewed and not subject to audit. 3. Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary. 4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone quarterly financial results is available on stock exchange websites and on Company's website.

For and on behalf of the Board
 Pawan Kumar Garg
 Chairman & Managing Director
 DIN-00250836
 Place: Kanpur
 Date: 13.08.2022

INTERWORLD DIGITAL LIMITED

CIN : L72990DL1995PLC097808
 Regd. Off: 701, Anandchi Building, 15, Barabankha Road, Connaught Place, New Delhi- 110001
 Phone: 011-43571044-45, Fax: 011-43571047, Website: www.interworlddigital.in, Email: interworlddigital@gmail.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022 (Rs. In Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
		30.06.2022 (Un-audited)	30.06.2021 (Un-audited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total income from operations (net)	0.91	0.00	9.42
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or Extraordinary items)	(4.21)	(4.31)	(9.49)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or Extraordinary items)	(4.21)	(4.31)	(3811.40)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or Extraordinary items)	(4.21)	(4.31)	(3769.21)
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax))	(4.21)	(4.31)	(3769.21)
6	Equity Share Capital	4783.77	4783.77	4783.77
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	3611.43
8	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operation)			
Basic:	0.00	0.00	(0.79)	
Diluted:	0.00	0.00	(0.79)	

Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results is available on the BSE's website, i.e., www.bseindia.com and on the Company's website www.interworlddigital.in

For and on behalf of Board Directors of
 Interworld Digital Limited
 Sd/-
 Peeyush Kumar Aggarwal
 Chairman
 DIN: 0099423
 Place: New Delhi
 Date: 13.08.2022

IM+ Capitals Limited

Regd. Office: 72, Ground Floor, World Trade Center, Babar Road, Connaught Place, New Delhi- 110001
 CIN:L74140DL1991PLC340407, Website: www.imcapitals.com, Email: imcapitalscompliances@gmail.com

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2022 (Rs. In Lacs except in Earning Per Share)

S.No.	PARTICULARS	Standalone		Consolidated	
		30.06.2022 (Un-Audited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2022 (Un-Audited)	31.03.2022 (Audited)
1.	Total Income from operations	25.09	1.07	40.83	18.11
2.	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	3.68	(35.43)	14.93	(34.99)
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary Items)	3.68	(35.43)	14.93	(34.99)
4.	Total Comprehensive Income/(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)	3.68	(35.43)	14.93	(34.99)
5.	Equity paidup share capital	350.16	350.16	350.16	350.16
6.	Earning Per Share (not annualised):				
(a) Basic (₹)	0.11	(1.01)	0.43	(1.00)	
(b) Diluted(₹)	0.11	(1.01)	0.43	(1.00)	

1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 13th August, 2022. The Statutory auditors have conducted a limited review of the above Financial Results.
 2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited standalone and consolidated financial results is available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and on the company website www.imcapitals.com

By Order of the Board
 For IM+ Capitals Limited
 Sd/-
 Vishal Singhal
 Whole Time Director
 Place : New Delhi
 Date : 13-August-2022

CARBON SPECIALITIES LIMITED

CIN: L65929UP1985PLC111401
 REGD OFF: 7/181 A, Duplex Bunglow Unit No. 4, Swaroop Nagar, Kanpur-208002 (UP)
 Email id: carbonspecialities85@gmail.com Contact: +91-9838823600 Website: http://carbon.in.net/

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2022 (Rs. In Lacs)

S. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED		YEAR ENDED
		30.06.2022 (Unaudited)	30.06.2021 (Audited)	
1	Total income from operations (net)			

आईएम+कैपिटल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 72, बल्लू ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, कानपुर जिले, नई दिल्ली-110001
 सीआईएन: L74140DL1991PLC340407 ई-मेल: imcapitalscompliances@gmail.com, वेबसाइट: www.imcapitals.com

क्र.सं.	विवरण	स्टैंडएलोन		समेकित	
		समाप्त तिमाही		समाप्त तिमाही	
		30.06.2022 अलेखा परीक्षित	31.03.2022 लेखा परीक्षित	30.06.2022 अलेखा परीक्षित	31.03.2022 लेखा परीक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	25.09	1.07	40.83	18.11
2.	कर पश्चात सामान्य मतिविधियों से निवल लाभ/(हानि) (हासिल)	3.68	(35.43)	14.93	(34.99)
3.	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अवधारित तथा असाधारण मदों के पश्चात)	3.68	(35.43)	14.93	(34.99)
4.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय/अवधि हेतु कुल व्यय (हासिल) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित,	3.68	(35.43)	14.93	(34.99)
5.	इन्विस्टी शेयर पूंजी	350.16	350.16	350.16	350.16
6.	आय प्रति शेयर (वार्षिक नहीं):				
	बेसिक: (₹)	0.11	(1.01)	0.43	(1.00)
	डाइल्यूटेड: (₹)	0.11	(1.01)	0.43	(1.00)

1. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और विचारण की गई और निदेशक मंडल द्वारा 13 अगस्त, 2022 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया। सांख्यिक लेखा परीक्षा को उपरोक्त वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
 2. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ धार्य अलेखापरीक्षा तिमाही परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। अलेखापरीक्षा स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट: www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.imcapitals.com

**For All Advertisement Booking
Call : 0120-6651214**



धामपुर स्पेशलिटी शुगर्स लिमिटेड

CIN-L24112UP1992PLC014478
 ११ प्राम प्रस्तावाला, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर (उ.प्र.)- 246761

www.dhampurgreen.com

क्र.सं.	विवरण	स्टैंडएलोन				समेकित			
		समाप्त तिमाही		समाप्त तिमाही		समाप्त तिमाही		समाप्त तिमाही	
		अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	246.90	345.53	234.66	473.22	587.48	494.05	1343.90	2411.64
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विधि एवं अथवा असाधारण मदों से पूर्व में)	1.81	-63.46	49.19	13.72	-76.22	51.02	38.45	48.81
3.	कर के पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विधि एवं अथवा असाधारण मदों के बाद में)	1.81	-63.73	49.19	13.72	-76.49	51.02	38.18	48.54
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विधि एवं अथवा असाधारण मदों के बाद में)	1.34	-47.33	38.37	10.15	-53.43	39.37	30.94	42.37
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु 'कर के बाद' लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	1.34	-47.33	38.37	10.15	-53.43	39.37	30.94	42.37
6.	इन्विस्टी शेयर पूंजी	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12
7.	आय प्रति शेयर (₹ 10/- प्रति का) (चारों तरफ अयस्कृत प्रचालनों के लिए)								
8.	आय प्रति शेयर (₹ 10/- प्रति का) (चारों तरफ अयस्कृत प्रचालनों के लिए)								
	(क) मूल	0.02	-0.60	0.48	0.13	-0.67	0.50	0.39	0.53
	(ख) तरल	0.02	-0.60	0.48	0.13	-0.67	0.50	0.39	0.53

टिप्पणियाँ:
 1. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई, तथा 13.8.2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।
 2. कम्पनी के सांख्यिक अंकेक्षकों ने 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी किये हैं।
 3. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई अनंकेक्षित स्टैंडएलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप का साह है। अनंकेक्षित स्टैंडएलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.sugarindia.com/www.dhampurgreen.com पर उपलब्ध है।

धामपुर स्पेशलिटी शुगर्स लिमिटेड के लिचे हस्ता/- अनौद्योगिक कम्पनी सचिव

AMIN TANNERY LIMITED

CIN No.U19115UP2013PLC055834
 Regd. Office: 15/288 C, Civil Lines, Kanpur - 208 001 (U.P.)
 Ph. No.: +91 512 2304077, Email: share@amintannery.in, Web: www.amintannery.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

Sl. No	Particulars	Three Months ended		Three Months ended	
		30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1.	Total Income	1,167.37	1,190.70	832.38	3,921.06
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	73.92	46.77	58.40	270.19
3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	9.16	1.07	7.57	26.37
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	9.16	1.07	7.57	26.37
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	6.59	0.80	5.73	19.77
6.	Total Comprehensive Income for the period	9.29	3.65	4.72	24.13
7.	Equity Share Capital (Face value of ₹ 1/- per share)	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73
8.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹1/-each) (Not Annualized *)				
i.	Before Extraordinary Items (in ₹)	0.01	0.01	0.01	0.02
ii.	After Extraordinary Items (in ₹)	0.01	0.01	0.01	0.02

Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended standalone financial results are available on the Stock Exchange websites: - www.bseindia.com and on the Company's website www.amintannery.in

For and on Behalf of Board of Directors
VEGARUL AMIN
 Managing Director
 DIN : 00037469

Place: KANPUR
 Date: 13th August, 2022

JAGJANANI TEXTILES LIMITED

Regd. Office: SCOs No. 33 and 34, RICO Shopping Complex, Bagru Ext. 1, Bagru, Jaipur-303007.
 CIN: L17124RJ1997PLC013498; E-mail: compliance@jagjanani.com; Phone: 0141-4104745

Particulars	3 months ended		Year ended	
	30-Jun-22	31-Mar-22	30-Jun-21	31-Mar-22
Total Income from Operations		1383	2	1381
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(217)	39	(567)	1085
Net Profit/Loss for the period after tax (after Extraordinary items)	(217)	39	(567)	1085
Equity Share Capital	156000	156000	156000	156000
Earning per share (after extraordinary items) (of ₹ 1/- each) (not annualised) Basic & Diluted	(0.014)	0.002	(0.03)	0.070

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website, www.bseindia.com.

FOR JAGJANANI TEXTILES LIMITED

Jaipur
 13.08.2022
 Nikhil Sharma
 Company Secretary

एपीएस इंडिया लिमिटेड

CIN: L51900DL1983PLC164048
 पंजीकृत कार्यालय: 18/32, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
 फोन: 011-4320 6650, फैक्स: 011-2571 3631 | ईमेल: mail@apisindia.com
 वेबसाइट: www.apisindia.com

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		
		₹ लाखों में ईपीएस को छोड़कर		
		30.06.2022 (अनंकेक्षित)	30.06.2021 (अनंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	6,830.89	7,713.09	29,597.19
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विधि एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(61.89)	219.33	878.17
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विधि एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(61.89)	219.33	878.17
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विधि एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	177.04	123.90	767.83
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु 'कर के बाद' लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	177.04	123.90	710.38
6.	प्रदत्त इन्विस्टी शेयर पूंजी (सम मूल्य ₹10/- प्रति)	551.01	551.01	551.01
7.	रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	8,696.14
8.	आय प्रति शेयर (सम मूल्य ₹ 10/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं) मूल एवं तरल आय प्रति शेयर (₹ में)	3.21	2.25	12.89

नोट्स:
 1. उपरोक्त अनंकेक्षित कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई थी और 13 अगस्त, 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
 2. कम्पनी के वार्षिक लेखा परीक्षकों ने सेबी (विनियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित (स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड) वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
 3. उपरोक्त 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है, जो सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किया गया है। अनंकेक्षित (स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड) 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के वित्तीय परिणाम बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) की वेबसाइट पर और कंपनी की वेबसाइट www.apisindia.com पर उपलब्ध है।
 4. **स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:**

विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष
	30.06.2022 (अनंकेक्षित)	30.06.2021 (अनंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	6,830.89	7,713.09	29,662.52
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(61.85)	219.39	946.09
कर के बाद लाभ/(हानि)	(61.85)	158.36	600.14
अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	-	(57.45)
कुल व्यापक आय/(हानि)	(61.85)	158.36	542.69

बोर्ड के आदेशानुसार कृते एपीएस इंडिया लिमिटेड हस्ता/- अमित आनंद प्रबंध निदेशक
 दिनांक: 13 अगस्त, 2022
 स्थान: नई दिल्ली
 DIN:00951321

IMPORTANT

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पंकज पीयूष ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

सीआईएन : L65990DL1982PLC256291
 पंजीकृत कार्यालय : 314, तीसरी मंजिल, समने प्लॉट से. 39, आर.जी. मॉल, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
 वेबसाइट : www.pptinvestment.in, ई-मेल : infopptinvestment@gmail.com,
 दूरभाष : 011-42804171, 9891442777

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			
		30.6.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.3.2022 (लेखापरीक्षित)	30.6.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.3.2022 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय (निवल लाभ/हानि)	37.42	41.16	48.78	204.16
2.	कर पूर्व सामान्य मतिविधियों से निवल लाभ/(हानि)	29.62	(68.65)	13.52	(2.47)
3.	अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के पश्चात)	22.17	(53.79)	10.12	(4.63)
4.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से मिलकर)	22.17	(53.79)	10.12	(4.63)
5.	प्रदत्त इन्विस्टी शेयर पूंजी	40.00	40.00	40.00	40.00
6.	आय प्रति शेयर (तुलन पर में प्रदर्शित पुनर्मुल्यांकन आक्षिप्तों को छोड़कर)	2493.43	2498.06	2498.06	2498.06
7.	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व एवं पश्चात) (₹. 10/- प्रत्येक के)				
	बेसिक :	5.54	(13.45)	2.53	(1.16)
	डाइल्यूटेड :	5.54	(13.45)	2.53	(1.16)

टिप्पणियाँ :
 1. उक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा उसके बाद 12 अगस्त, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।
 2. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का साह है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट www.pptinvestment.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

पंकज पीयूष ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के लिचे हस्ता/- विनोद कुमार बंसल प्रबन्ध निदेशक
 तिथि : 12.8.2022
 स्थान : नई दिल्ली
 DIN: 00243709

इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: सी-24, किफैस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
 सीआईएन: L31909DL1995PLC271716, दूरभाष: 91-11-41562579
 ई-मेल: info@integratedtech.in, वेबसाइट: www.integratedtech.in

30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ लाख में, प्रति अंश आंकड़ा छोड़कर)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			
		30.06.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2022 (लेखापरीक्षित)	30.06.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2022 (लेखापरीक्षित)
1.	परिचालनों से राजस्व (क) निवल विक्रय/परिचालनों से आय (ख) अन्य परिचालनात्मक आय	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	परिचालनों से कुल राजस्व	0.00	12.01	0.00	12.01
3.	अन्य आय	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कुल आय (1+2)	0.00	12.01	0.00	12.01
5.	व्यय (क) उपभोगित सामग्री की लागत (ख) स्टॉक इन ट्रेड का खय (ग) तैयार वस्तुओं, वर्क इन प्रोग्रेस तथा स्टॉक इन ट्रेड की डिप्रेटेशन में परिवर्तन (घ) कर्मचारी लाभ व्यय (ङ) वित्त व्यय (च) हास व्यय (छ) अन्य व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	कुल व्यय (4क) से 4(ख) तक	0.00	1.05	1.05	4.21
7.	आय प्रति शेयर (अनंकेक्षित)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	करों से पूर्व लाभ (5-6)	0.01	9.65	0.23	11.97
9.	कर व्यय	0.00	10.70	1.28	16.18
10.	कर उपरोक्त अवधि हेतु लाभ (7-8)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	अन्य व्यापक आय (अंशों/आई) i) मर्द, जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा (निवल कर) ii) मर्द, जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (निवल कर)	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (9+10)	0.00	(8.56)	(1.28)	(14.04)
13.	प्रदत्त समता अंश पूंजी (₹. 10/- प्रत्येक का समाप्त अंश, पूर्णक प्रकृत)	478.15	478.15	478.15	478.15
14.	अन्य समताएं				
15.	आय प्रति अंश (अंशों का नाममात्र मूल्य ₹. 10 (पूर्ववर्ती वर्ष ₹. 10), (अवधि/वर्ष) क) मूल (ख) तरलीकृत	0.00	(0.18)	(0.03)	(0.29)

टिप्पणियाँ:
 1. उपरोक्त वित्तीय परिणाम, कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विरचित प्रासंगिक नियमावली के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारितानुसार भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी-एएस) के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('दी कम्पनी') के संवैधानिक लेखापरीक्षकों ने संशोधितानुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमवली 2015 के विनियम 33 के अनुसार उपरोक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की है तथा एक असाधारित समीक्षागत राय निर्गत की है।
 2. कम्पनी एक एकल परिचालनात्मक खाण्डवार प्रिंटेड सॉफ्टवेयर में परिचालन करती है। अतः यहां आईएनडी एएस 108 "परिचालनात्मक खाण्डवार" के अनुसार कोई पृथक प्रतियोग्य खाण्डवार नहीं है।
 3. दिनांक 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त लेखापरीक्षित परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा 1